

उत्पाद डेटा शीट

GC 171 *



वायरलेस मॉड्यूल, रेडओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- संरक्षित भवनों में बगैर अभिकल्प परवर्तनों के स्थापना (केबल बछिाई)
- वर्तमान प्रणालियों के रेट्रोफिट या अपग्रेड के लिए

GC 171 *

उत्पाद की विशेषताएँ

- लनिटल-माउंटेड डटिक्टर और सीलिंग-माउंटेड डटिक्टर या मैनुअल रिलीज बटन के बीच केबल संयोजन की आवश्यकता नहीं है
- रेडिओ घटकों का सरल युग्मन
- एक से छह तक रेडिओ उपभोक्ता संयोजित किए जा सकते हैं
- मशिनि स्थाना (वायरलेस/ केबल द्वारा जुड़ा) मुमकिन है
- सर्विस पर कम खर्चा, बैटरी की लम्बी (पाँच साल की) सेवा अवधि की वजह से

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	GC 171 *
मापे	177 x 30 x 18 mm
परिचालन तापमान	-5 °C - 50 °C
अतिरिक्त स्मोक स्विच कनेक्शन	6
दृश्य ऑपरेटिंग स्थिति प्रदर्शन	हाँ
वोल्टेज आपूर्ति	24 V DC
आईपी रेटिंग	IP20
सामग्री	प्लास्टिक
स्थापना का प्रकार	दीवार, लनिटल
लाइन फीड	नीचे, साइड में
अनुप्रयोग क्षेत्र	भीतरी क्षेत्र

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डटिक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डटिक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्र साइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।